



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 कार्तिक 1944 (श10)
(सं0 पटना 902) पटना, बुधवार, 26 अक्टूबर, 2022

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

25 अक्टूबर, 2022

सं० Exp-21/2020/(खंड-90) मीनापुर-193—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या- 76/बिहार-वि.स./2020/90/सी.ई.एम.एस.-III दिनांक 29.07.2022 से एतद्वारा घोषित किया गया है कि बिहार राज्य के 90- मीनापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती भारती देवी, निवासी ग्राम- काजीपुर थाथन, थाना- सदर, पोस्ट- थाथन बुर्जुग, जिला- वैशाली, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव -सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/तारीख-29 जुलाई, 2022/07 श्रावण, 1944(शक)

सं० 76/बिहार-वि.स./2020/90/सी.ई.एम.एस.-III-यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी०एन०./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 90- मीनापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 04 जनवरी, 2021 के पत्र सं. व्यय-21/2020 (खंड- 90) मीनापुर- 19 के जरिए अग्रेषित दिनांक 16 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती भारती देवी जो बिहार के 90- मीनापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती भारती देवी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती भारती देवी, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्रीमती भारती देवी, द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के भगीना द्वारा दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, द्वारा अपने दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 के पत्र संख्या 7-149/2020-922जिला० निर्वा० के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, द्वारा अपने दिनांक 11 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 7-149/2020-922जिला० निर्वा० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती भारती देवी, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती भारती देवी, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 90- मीनापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती भारती देवी, निवासी ग्राम- काजीपुर थाथन, थाना- सदर, पोस्ट- थाथन बुर्जुग, जिला- वैशाली, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
सुजीत कुमार मिश्र,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/Dated: 29 July, 2022/07th Shravan, 1944(Saka)

No. 76/BR-LA/2020/90/CEMS-III--WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer,;

AND WHEREAS, the result of the said election along with **90-Minapur** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020.

AND WHEREAS, As per the report dated **16th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **Muzaffarpur**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-90) Minapur-19, dated 04 January, 2021, **Smt Bharti Devi**, contesting candidate from **90- Minapur** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses, in the manner, as required under law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Muzaffarpur**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show- Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt Bharti Devi**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show- Cause Notice, dated 25th June, 2021 **Smt Bharti Devi**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reason for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by nephew on 08th October, 2021, at the address given by **Smt Bharti Devi**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Muzaffarpur**, vide its letter no. 7-149/2020-922/District.Nirva, dated 11 December, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Muzaffarpur**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 7-149/2020-922/District.Nirva, dated 11 December, 2021 has reported that **Smt Bharti Devi**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice to the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Smt Bharti Devi**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person:

i. *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*
ii. *has no good reason or justification for the failure,*
the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order”;

NOW **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt Bharti Devi**, resident of **AT- Kajipur Thathan, POST- Thathan Burjug, PS- Sadar, DIST- Vaishali**, and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 in **90-Minapur** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

Order By,
SUJEET KUMAR MISHRA,
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 902-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>